





यह मानचित्र भू-स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख नहीं है और प्रस्तावक/पक्ष को भूमि का स्वत्वधिकार प्रदान नहीं करता। प्रस्तावक/पक्ष द्वारा दाखिल स्वामित्व अभिलेख और शपथ पत्र मविप में कमी की फर्जी और असत्य घोषणाओं को मानचित्र की स्वीकृति निरस्त समझी जाएगी और यह समझा जाएगा कि इस सम्बन्ध में मानचित्र पर कोई स्वीकृति नहीं दी गई है तथा मानचित्र स्वीकृति के आधार पर प्रस्तावक द्वारा किया गया कोई निर्माण पूर्णतया अवैध माना जाएगा और इस कृत्य के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
 जैन अधिकारी
 चन्द्रमणी विन्ध्य प्रतिक्रम
 श्रावणपुरी
 21/11/19

स्वीकृत इस शर्त के अधीन दी जाती है कि शपथ पत्र में भूमि के स्वामित्व और शहरी भूमि सीमा निर्धारण अधिनियम 1976 के अधिकार क्षेत्र से उसका क्षेत्रफल बाहर होने के सम्बन्ध में की गयी घोषणा यदि गलत साबित हुई तो यह स्वीकृति निरस्त समझी जाएगी और यह समझा जाएगा कि इस सम्बन्ध में नक्सों की कोई स्वीकृति नहीं दी गयी थी।



STILT FLOOR E.C.S CALCULATION	
	SQ. MTS.
STILT FLOOR GRID AREA	3266.56
SHOP AREA ON STILT FLOOR	29.94
MECHANICAL VENTILATION GRID AREA ON STILT FLOOR	54.56
REQUIRED E.C.S. FOR 1 CAR (STILT)	28
TOTAL E.C.S. ON STILT FLOOR	113.65

BASEMENT FLOOR E.C.S CALCULATION	
	SQ. MTS.
BASEMENT FLOOR GRID AREA	3519.32
FACILITIES (GYM, HALL, INDOOR GAMES)	206.26
AREA AFTER REDUCTION	3313.06
AREA PROPOSED FOR MECHANISED PARKING	321.52
E.C.S. REQUIRED FOR MECHANISED PARKING	16.00
MECHANISED PARKING E.C.S.	20.10
AREA PROPOSED FOR NORMAL PARKING	2991.54
E.C.S. REQUIRED FOR NORMAL PARKING	32.00
NORMAL PARKING E.C.S.	93.49
TOTAL (MECHANISED+NORMAL) E.C.S.	113.58



FACILITIES	
ITEM	AREA SQ.MT
BASEMENT	
GYM	50.36
INDOOR GAMES	44.97
COMMON HALL	88.80
CIRCULATION	22.33
TOTAL	206.26
STILT	
SHOP-1	8.06
SHOP-2	7.07
SHOP-3	7.38
SHOP-4	7.43
TOTAL	29.94

MECHANICAL VENTILATION	
ITEM	AREA SQ.MT
M.V-1	4.08
M.V-2	3.83
M.V-3	9.87
M.V-4	3.35
M.V-5	3.85
M.V-6	3.29
M.V-7	26.29
TOTAL	54.56

STILT FLOOR PARKING PLAN

CERTIFICATE
 1- CERTIFIED THAT THERE IS NO PROP. OR ROAD MAINTAINED BY ANY GOVT. DEPTT. OR BELONGING TO RLY. SCHEME WITH IN 30.48 MT FROM THE SITE IN QUESTION.
 2- PLAN HAS BEEN PREPARED AS PER BUILDING BYE LAWS 2006 & MASTER PLAN 2001.

PROJECT:
 EXISTING CUM PROPOSED RESIDENTIAL GROUP HOUSING ON ARAZI NO.-261,266,1,266/2,260/4 MAUZA- DANDI, PARGANA- MAWAL, TAHSIL- CHANDAUJI, DISTT.- CHANDAUJI.

DRG. TITLE: NORTH
 BASEMENT & STILT FLOOR CAR PARKING PLAN
SCALE: 1:200
DATED: 19/08/2015
DRN. BY: ABHILEET

OWNED BY:
 1- MR. PARMOD KUMAR BAJAJ
 S/O LATE SANVAL LAL BAJAJ
 2- MRS. ANITA BAJAJ
 W/O- PARMOD BAJAJ

DEV. BY: M/S. RUDRA REALTECH PVT.LTD.
 RAMSHWER MALIYA, FIRST VALANE, HAWDA 711101 WEST BANGAL.
 Through its authorized signatory-
 MR. ANAND KUMAR AGARWAL
 S/O. LATE ASHOK KUMAR AGARWAL
 C.K. 88/165A, PIVARI KALA, HOWK, VARANASI.

OWNERS / DEVELOPERS SIGN: [Signature]

ARCHITECTS SIGN: [Signature]

ASEEM SANRACHANA DESIGNS LTD.
 5 UGF, Himalaya House, 23 Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001

AR. RAJIV BAJPAI
 B ARCH M.C.A.
 CA/2002/29796
 ASEEM SANRACHANA DESIGNS LTD.

SHEET NO. 2/5